



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 1977/वैशाख 20, 1899

No. 193] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 1977/VAISAKHA 20, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

*New Delhi, the 10th May 1977*

**S O. 323(E).**—Whereas the name of the Proutist Block of India was deleted by the Commission from the list of registered unrecognised political parties by its notification No 56/75-VIII, dated 4 August, 1975 in pursuance of Government of India, Ministry of Home Affairs Order No II/16013/5/75-S&P (D. II), dated 3 July, 1975 published as S.O 304(E) in the Gazette of India dated 3 July, 1975

And whereas the Government of India in the Ministry of Home Affairs has cancelled the above Order by its Order No II/16011/21/77-S&P (D. II), dated 22 March, 1977 published as S O 248(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3(ii), dated 22 March, 1977,

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendments to its notification No 56/77-I, dated 22 January, 1977, published as S O 37(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3(ii), dated 22 January, 1977 and as amended from time to time, namely—

In the Table appended to the said notification, the following entry shall be made after S No 38—

- “39. Proutist Block of India—1. Andhra Pradesh, 2 Assam, 3 Bihar, 4. Gujarat, 5 Himachel Pradesh, 6. Jammu and Kashmir, 7 Kerala, 8. Madhya Pradesh, 9. Maharashtra 10. Orissa, 11 Punjab 12 Rajasthan, 13 Tamil Nadu, 14 Tripura, 15 Uttar Pradesh and 16 West Bengal

[No 56/77-IX]

By Order,

V NAGASUBRAMANIAN Secy.

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली 10 मई, 1977

का० आ० 323(अ) — भारत के राजपत्र, तारीख 3 जुलाई, 1975 में का०आ० 304 (अ) के रूप में प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश सं० J/16013/5/375—एस० एण्ड पी० (डी II), तारीख 3 जुलाई, 1975 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना सं० 56/75-8, तारीख 4 अगस्त, 1975 द्वारा भारतीय प्राउटिस्ट ब्लॉक का नाम रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची से हटा दिया गया था ;

और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 (II), तारीख 22 मार्च, 1977 में का०आ० 248(अ) के रूप में प्रकाशित अपने आदेश सं० II/16011/21/71—एस० एण्ड पी० (डी० II) तारीख 22 मार्च, 1977 द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उपर्युक्त आदेश को रद्द कर दिया है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ग), तथा उप-पैरा (2) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 (II), तारीख 22 जनवरी, 1977 में का०आ० 37 (अ) के रूप में प्रकाशित तथा समय-समय पर प्रकाशित अधिसूचना सं० 56/77-I, तारीख 22 जनवरी, 1977 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :—

उक्त अधिसूचना में सलग्न सारणी में क्रम सं० 38 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

“39. भारतीय प्राउटिस्ट ब्लॉक — (1) आंध्र प्रदेश, (2) आसाम, (3) बिहार, (4) गुजरात, (5) हिमाचल प्रदेश, (6) जम्मू-काश्मीर, (7) केरल, (8) मध्य प्रदेश, (9) महाराष्ट्र, (10) उड़ीसा, (11) पंजाब, (12) राजस्थान, (13) तमिलनाडु, (14) त्रिपुरा, (15) उत्तर प्रदेश और (16) पश्चिमी बंगाल ।

[ 56/77-IX ]

आदेश में,

बी० नागमुद्रमथ्यन, सचिव ।